



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

22 माघ 1946 (श0)  
(सं0 पटना 106) पटना, मंगलवार, 11 फरवरी 2025

---

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

10 फरवरी 2025

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-०1/2025-107—बिहार राज्यपाल का दिनांक-07.02.2025 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा को दिनांक 28 फरवरी, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।

पटना,  
दिनांक-07.02.2025

आरिफ मोहम्मद खां,  
राज्यपाल, बिहार।”

नवीन,  
सरकार के अपर सचिव।

10 फरवरी 2025

सं० सं० का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-०1/2025-108 अधिसूचना संख्या-107 दिनांक-10.02.2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
नवीन,  
सरकार के अपर सचिव।

***The 10<sup>th</sup> February 2025***

No. P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2025-107/ The Following order of the Governor of Bihar dated the **07-02-2025** is hereby published for general information:-

**“In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Arif Mohammed Khan, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Assembly to meet at 11.00 AM on the 28<sup>th</sup> February, 2025 in the Assembly Chamber, Patna.**

Patna,  
Dated- 07-02-2025

**Arif Mohammed Khan**  
**Governor of Bihar.”**

**Navin,**  
**Additional Secretary to Government.**

भारत के संविधान के अधीन गठित सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश-सत्र का

औपबधिक कार्यक्रम

फरवरी-मार्च, 2025

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025

1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद-176(1) के अधीन 11.30 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत बैठक में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण।
3. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
4. आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण।
5. शोक प्रकाश (यदि हो)।

शनिवार, दिनांक 01 मार्च, 2025

रविवार, दिनांक 02 मार्च, 2025

}

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय-व्ययक का उपस्थापन।
2. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।

मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2025

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर।

बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श।

वृहस्पतिवार, दिनांक 06 मार्च, 2025

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।

शुक्रवार, दिनांक 07 मार्च, 2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान।

शनिवार, दिनांक 08 मार्च, 2025

रविवार, दिनांक 09 मार्च, 2025

}

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 10 मार्च, 2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक।

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025

वृहस्पतिवार, दिनांक 13 मार्च, 2025

}

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान।

शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2025

शनिवार, दिनांक 15 मार्च, 2025

रविवार, दिनांक 16 मार्च, 2025

}

बैठक नहीं होगी (होली)।

सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025

वृहस्पतिवार, दिनांक 20 मार्च, 2025

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025

}

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान।

शनिवार, दिनांक 22 मार्च, 2025  
रविवार, दिनांक 23 मार्च, 2025

}

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक से संबंधित विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर।

मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2025

राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।

बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

वृहस्पतिवार, दिनांक 27 मार्च, 2025

राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।

शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2025

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

\*\*\*\*\*

- माननीय राज्यपाल का अभिभाषण— 01 कार्य दिवस
- माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद — 02 कार्य दिवस
- 2025-26 के आय व्ययक पर सामान्य विमर्श — 02 कार्य दिवस
- वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक—01 कार्य दिवस
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक —9+1=10 कार्य दिवस
- राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य — 02 कार्य दिवस
- गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) — 02 कार्य दिवस
- कुल बैठक — 20 कार्य दिवस।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 106-571+10-डी0टी0पी0 ।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>